



Date: 6/04/2023

Report on “CODE-FIESTA: a competitive programming contest”

Title of the activity:	Workshop on “CODE-FIESTA: A Competitive programming contest” BY Department of CSE, IEEE Student Chapter MITS and IEEE Computer Society MP Section
Date of activity:	Tuesday, 04 April 2023,
Schedule	10:30 PM to 05:30 PM
Objectives of the Event:	<ul style="list-style-type: none"> • To provide the first year student a feel of Hackathon event. Mini Hackathon is an event where student engage in rapid and collaborative engineering over a relatively short period of time such as 12 or 24 hours. We try to engage them for 8 hours. • To test computer programming knowledge. • To test real word problem realization via some app • To develop team spirit • To give exposure to IEEE and Computer Society
Poster:	<p>The poster is for the 'CODE FIESTA' event. It features a blue and white color scheme with a circuit-like background. The text includes: 'MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE', 'DEPARTMENT OF CSE', 'IN COLLABORATION WITH IEEE COMPUTER SOCIETY MP SECTION', 'PRESENTS CODE FIESTA', 'PHASES: 1 QUIZ, 2 IDEATHON, 3 CODETHON', '4TH APRIL 2023', 'IEEE CERTIFIED CERTIFICATE', 'The best error message is the one that never shows up.', 'ENTRIES: SINGLE - ₹50, TEAM - ₹70 (MAX 2)', 'Prizes: MONTHLY SUBSCRIPTION OF NETFLIX AND ONE UDEMY COURSE', and contact details for Prof. Smita Parte and Dr. Manish Dixit.</p>



MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR - 474005

(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

Department of Computer Science and Engineering



Photographs





Media Coverage

event city एमआइटीएस

समस्याओं को हल करने छात्रों ने कोडिंग की मदद से बनाए ऐप



पत्रिका plus रिपोर्टर

ग्वालियर. एमआइटीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आई ट्रिपलई स्टूडेंट चेंटर एवं कंप्यूटर सोसाइटी ने मिलकर एमआइटीएस में मिनी हैकाथॉन कराया। कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया। पहले चरण में कोडिंग क्विज कराई गई। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म डवलपमेंट किया गया, जिसमें क्विज पेज से फोकस हटने पर छात्र डिसक्वालीफाई हो जाता है, जिसमें चयनित टीमों को दूसरे भाग में भेजा गया। इसके अंदर स्टूडेंट्स को कुछ वास्तविक जीवन की समस्याएं दी गईं। तीसरे भाग में विद्यार्थियों ने इन्हीं समस्याओं को दूर

निधि और रौनक का पहला स्थान

विभागाध्यक्ष एवं आई ट्रिपलई के को-ऑर्डिनेटर डॉ. मनीष दीक्षित ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों का होलिस्टिक डवलपमेंट होता है। कॉम्पीटिशन में निधि तिवारी और रौनक मांडिल ने पहला स्थान, रेणुका वरकडे और रिद्धि शर्मा ने दूसरा एवं अर्चित सिंह बघेल एवं कनिष्क सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

करने के लिए कोडिंग की सहायता से प्रोग्राम व ऐप बनाए। प्रतियोगिता में विभिन्न टूल एवं तकनीकी आधारित प्रोजेक्ट डवलपमेंट किया गया।

Outcome of the workshop:

Participants would be able to:

- Understand real world problem.
- And tried to design, develop, test and evaluate apps for same.
- Performed in team.



MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR - 474005

(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

Department of Computer Science and Engineering



Attendance

Attendance sheet

SRNO	MEMBER 1	MEMBER 2	TEAM NAME	TEAM TYPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SRNO	MEMBER 1	MEMBER 2	TEAM NAME	TEAM TYPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
A GOVT. AIDED UGC AUTONOMOUS & NAAC ACCREDITED INSTITUTE, AFFILIATED TO R.G.P.V. BHOPAL (M.P.), INDIA

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This is presented to

for emerging as the winner of the 'CodeFiesta' contest, held on 4th April 2023, with their exceptional enthusiasm and participation. The contest was organized by the Computer Science and Engineering Department in collaboration with IEEE Computer Society MP Section

Prof. Smita Parte
Event Coordinator
CSE Department

Dr. Manish Dixit
Faculty Coordinator
IEEE Student Chapter MITS
HOD, CSE Department



(Prof. Smita Parte)
Event Coordinator



(Dr. Manish Dixit)
Professor & Head